

देह अभिमान के सूक्ष्म रूप

1. अपमान की फीलिंग में आना
2. जिद्ध या सिद्ध करना
3. थकावट का अनुभव करना
4. किसी भी कारण से भयभीत होना
5. किनारा करना
6. किसी को भी टोन्ट करना
7. आलस्य, अलबेलेपन में आना
8. रूठना, रूसना
9. रोब दिखाना
10. मान न मिल तो रुचि समाप्त हो जाना
11. दूसरे को दोषी ठहराना
12. अपनी गल्ती को स्वीकार न करना
13. रोना, पीटना
14. दिलशिकस्त होना, मूड ऑफ करना, उदास होना
15. परेशान होना, मूझना
16. अपने गुणों, विशेषता, सेवा की महिमा करना
17. स्तुति में खुश और निन्दा में दुःखी होना
18. आराम पसन्द बनना
19. किसी को भी आधार बनाना
20. बीमारी में बेसहारा अनुभव करना
21. अकेलापन अनुभव करना
22. किसी से भी प्रभावित होना
23. स्थूल सेवा न मिलने से मूड ऑफ, स्थिति डाऊन होना
24. अच्छे कपड़े, जूते, आदि का शौक रखना
25. अच्छा भोजन खुशी से स्वीकार करना,
साधारण भोजन देखते खुशी कम हो जाना या
बहाना बनाकर स्वीकार न करना..... आदि-आदि